

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2015—माघ 3, शक 1936

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2015

फा. क्र. 17(ई)-261-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), जबलपुर, इन्दौर, होशंगाबाद, मंदसौर, हरदा, भिण्ड एवं विदिशा मध्यप्रदेश हेतु त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को नगरीय निकायों निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

#### कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला मन्दसौर सेक्टर अधिकारियों की सूची

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	पदनाम (3)	विभाग (4)
1	श्री राजीव जोशी	उपसंचालक	कृषि
2	श्री आर. ए. एस. जोनवार	सहायक संचालक	कृषि
3	श्री एम. आर. जाटव	सहायक संचालक	कृषि
4	श्रीमती अनीता धाकड	सहायक संचालक	कृषि
5	श्री एन. एस. नर्गेश	परियोजना संचालक	आत्मा कृषि
6	श्री जितेन्द्र सिंह	सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि
7	श्री नीतेश यादव	सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि
8	श्री बी. आर. सरोदे	उपसंचालक	उद्यानिकी
9	श्री पी. आर. परमार	जिला शिक्षा अधिकारी	शिक्षा

(1)	(2)	(3)	(4)
10	श्री के. सी. शर्मा	D.P.C.	जिला शिक्षा केन्द्र
11	श्रीमती जमला तोमर	प्राचार्य	डाईट
12	श्री अरविंद खरे	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग, मन्दसौर
13	श्री महिपाल सगर	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग, मन्दसौर
14	श्री पी. आर. वर्मा	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग, मन्दसौर
15	श्री ए. के. शर्मा	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग, गांधी सागर
16	श्री एम. एस. चौहान	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग, गांधी सागर
17	श्री एस. आर. चौहान	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग, गांधी सागर
18	श्री नपेन्द्रप्रताप देव	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग, गांधी सागर
19	डॉ. एस. बी. कोसरवाल	उपसंचालक	पशुपालन
20	डॉ. ए. के. सिंह	पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी	पशुपालन
21	डॉ. जे. के. जैन	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	पशुपालन
22	डॉ. पंकज जैन	प्रबंधक	पशुपालन
23	डॉ. एस. डी. कुमावत	पशुपालन विस्तार अधिकारी	पशुपालन
24	डॉ. के. एस. सगर	पशुपालन विस्तार अधिकारी	पशुपालन
25	डॉ. ए. एच. बोहरा	पशुपालन विस्तार अधिकारी	पशुपालन
26	श्रीमती अशुंबाला मसीह	D.P.O.	महिला बाल विकास
27	श्री रविन्द्र मिश्रा	सहायक संचालक	महिला बाल विकास
28	श्री वी. एस. चौहान	C.D.P.O.	महिला बाल विकास
29	श्री मनोज दुबे	C.D.P.O.	महिला बाल विकास
30	श्री मनोज जाट	C.D.P.O.	महिला बाल विकास
31	श्री आई. एम. अंसारी	C.D.P.O.	महिला बाल विकास
32	श्रीमती उमा वर्मा	C.D.P.O.	महिला बाल विकास
33	श्रीमती सत्या डामोर	C.D.P.O.	महिला बाल विकास
34	सुश्री प्रियंका जायसवाल	C.D.P.O.	महिला बाल विकास
35	सुश्री मीनाक्षी हरवंश	C.D.P.O.	महिला बाल विकास
36	श्री रविन्द्र महाजन	महिला सशक्तिकरण अधिकारी	महिला बाल विकास
37	श्री बी. एस. चौहान	उपायुक्त	सहकारिता
38	श्री सी. के. श्रीसे	सहायक संचालक	मछलीपालन
39	श्री के. एल. गोमे	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
40	श्री आर. के. गंगराडे	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
41	श्री ओ. पी. निम्बे	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
42	श्री ए. एच. खान	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
43	श्री आर. एस. तोमर	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत सीतामऊ
44	श्री के. सी. भारती	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत मन्दसौर

(1)	(2)	(3)	(4)
45	श्री बी. पी. सतनामी	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत मल्हारगढ
46	श्री ए. के. तिवारी	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत गरोट
47	श्री आर. के. रघुवंशी	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत भानपुरा
48	श्री उमेश चन्द्रवाल	सहायक यंत्री	विद्युत सुरक्षा
49	श्री जी. एस. भुरिया	सहायक यंत्री	P.I.U. लोक निर्माण विभाग
50	श्री डी. पी. कुमरे	कार्यपालन यंत्री	P.I.U. लोक निर्माण विभाग
51	श्री हेमु कुमरे	कार्यपालन यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
52	श्री आर. के. नवीन	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
53	श्री मनोज भास्कर	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
54	श्री टी. बी. बोबडे	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
55	श्री अजय प्रधान	ग्रामोद्योग अधिकारी	जिला पंचायत
56	श्री अनिल तिवारी	A.P.O.	जिला पंचायत
57	श्री एस. के. पटेल	जिला योजना अधिकारी	योजना एवं सांख्यिकी
58	डॉ. लोकेश वर्मा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	पशुपालन विभाग मन्दसौर
59	श्री एस. एल. बजाज	जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी	अक्षय ऊर्जा
60	श्री एम. एल. बजाज	परियोजना अधिकारी	जिला शहरी विकास
61	श्री एम. एस. चुण्डावत	सहायक प्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
62	श्री पी. के. शर्मा	सहायक प्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
63	श्री आर. एस. तंवर	सहायक प्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
64	श्री व्ही. के. एस. कुशवाह	सहायक प्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
65	श्री आर. बी. रस्तोगी	प्रबंधक	जिला उद्योग केन्द्र
66	श्री राजेश गुप्ता	इंजीनियर	उद्यानिकी महाविद्यालय
67	श्री एच. एल. माली	संस्थागत वित्त अधि.	कलेक्टोरेट
68	श्री राजेश भाबोर	सहायक वाणिज्यकर अधिकारी	वाणिज्यकर
69	श्री आर. के. अग्निहोत्री	कार्यपालन अधिकारी	अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति
70	डॉ. डी. के. जैन	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	पशुपालन विभाग मन्दसौर
71	श्री रमेश कुम्भारे	जिला संयोजक	पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क
72	श्रीमती मेघना भट्ट	सहायक आयुक्त	श्रम विभाग
73	श्री एन. के. पाटीदार	प्राचार्य	शा. महाविद्यालय पिपल्या